



Khairul Islam higher Education Society's

# Maharashtra College

## OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE

Ref. No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ 26/07/2018

### Government Scholarship 2017-2018

| Sr. No | Name Of the Student             | Amount | Date       | Scholarship Name                   |
|--------|---------------------------------|--------|------------|------------------------------------|
| 1      | Ibrahim Khan                    | 5000   | 19/07/2018 | APBS/GOM Minority Scholarship/1416 |
| 2      | Faizan Ansari                   | 5000   | 19/07/2018 | ECS/GOM Minority Scholarship       |
| 3      | Mohammed Husain Zuber Mansuri   | 5000   | 19/07/2018 | 00/GOM Minority Scholarship        |
| 4      | Adil Numair                     | 5000   | 19/07/2018 | GOM Minority Scholarship           |
| 5      | Ansari Uzair Mohd Irfan         | 5000   | 19/07/2018 | APB/GOM Minority Scholarship/1416  |
| 6      | Arif Shaban Ansari              | 5000   | 19/07/2018 | GOM Minority Scholarship           |
| 7      | Gausiya Bashiruddin Shaikh      | 4250   | 06/10/2018 | DTE Scholarship 16102018           |
| 8      | Shahid Raza Mohd. Parvez Ansari | 5000   | 19/07/2018 | 00/GOM Minority Scholarship        |
| 9      | Mujtaba Abdul Karim Shaikh      | 5000   | 19/07/2018 | APBS/GOM Minority Scholarship/1416 |
| 10     | Mohd Ahmed Niyaz Shaikh         | 12300  | 09/02/2018 | PAO Minority Affairs               |
| 11     | Iram Mubin Sachwani             | 5000   | 19/07/2018 | APB/GOM Minority Scholarship       |
| 12     | Birjees Salim Ansari            | 5000   | 19/07/2018 | 00/GOM Minority Scholarship        |
| 13     | Aafiya Mohd Aslam Khwaja        | 5000   | 19/07/2018 | 00/GOM Minority Scholarship        |
| 14     | Insah Mohammed Akbar Shaikh     | 5000   | 19/07/2018 | APB/GOM Minority Scholarship       |
| 15     | Zaheda S Shaikh                 | 5000   | 19/07/2018 | ECS/GOM Minority Scholarship       |
| 16     | Nazma Ayub Khan                 | 5000   | 19/07/2018 | BPHBM/GOM Minority Scholarship     |
| 17     | Nabeela Mohd Ismail Ansari      | 5000   | 19/07/2018 | APB/GOM Minority Scholarship       |
| Total  |                                 | 91550  |            |                                    |

Principal

246-A, JEHANGIR BOMAN BEHRAM ROAD, MUMBAI - 400 008.

TEL. : 2308 1664 / 2308 1665 • FAX : 2309 2248

Website : [www.maharashtracollege.org](http://www.maharashtracollege.org) • E-mail : [prin.maharashtracasc08@yahoo.com](mailto:prin.maharashtracasc08@yahoo.com)



MHW1/181D/1 1WBF M03 12

**MR. IBRAHIM KHAN**

1, SAIBABA NAGAR, NAGOBA, CHAWL, MAROL PIPE LINE,  
ANDHERI E, NEAR BORI COLONY, CHURCH ROAD  
MUMBAI  
MAHARASHTRA - INDIA - 400093

Your Base Branch: 215, FREE PRESS HOUSE, FREE  
PRESS MARG, NARIMAN POINT, 400021

Visit [www.icicibank.com](http://www.icicibank.com)

Dial your Bank 33667777

Did you know? It's mandatory to be KYC compliant as per RBI guidelines. If you have not submitted your KYC documents, please visit the nearest branch or contact your Relationship Manager to complete KYC details for your Account.

### Summary of Accounts held under Cust ID: 557573774 as on October 14, 2018

#### ACCOUNT DETAILS - INR

#### MR. IBRAHIM KHAN

| DATE         | MODE**          | PARTICULARS                    | DEPOSITS         | WITHDRAWALS      | BALANCE         |
|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 02-07-2018   | ICICI ATM       | ATM/CASH WDL/01-07-18/0        |                  | 4,700.00         | 0.00            |
| 19-07-2018   |                 | APBS/GOM MINORITY SCHOLAR/1416 | 5,000.00         |                  | 5,000.00        |
| 19-07-2018   | OTHER ATMS      | NFS/CASH WDL/19-07-18          |                  | 5,000.00         | 0.00            |
| 01-08-2018   | CMS TRANSACTION | CMS/ SAL JUL 18                | 5,000.00         |                  | 5,000.00        |
| 01-08-2018   | OTHER ATMS      | NFS/CASH WDL/01-08-18          |                  | 5,000.00         | 0.00            |
| 01-09-2018   | CMS TRANSACTION | CMS/ SAL AUG 18                | 5,180.00         |                  | 5,180.00        |
| 01-09-2018   | OTHER ATMS      | NFS/CASH WDL/01-09-18          |                  | 5,000.00         | 180.00          |
| 06-09-2018   | BANK CHARGES    | ATMDEC CHG/01-09-2018/9781+GST |                  | 29.50            | 150.50          |
| 07-09-2018   | BANK CHARGES    | ATMDEC CHG/01-09-2018/9781+GST |                  | 29.50            | 121.00          |
| 10-09-2018   |                 | IPRUGTP-NCA-SR526794707-SI     |                  | 100.00           | 21.00           |
| 01-10-2018   | CMS TRANSACTION | CMS/ SAL SEP 18                | 4,834.00         |                  | 4,855.00        |
| 10-10-2018   |                 | IPRUGTP-NCA-SR526794707-SI     |                  | 100.00           | 4,755.00        |
| <b>TOTAL</b> |                 |                                | <b>56,814.00</b> | <b>52,059.00</b> | <b>4,755.00</b> |

#### Account Related Other Information

| ACCOUNT TYPE | ACCOUNT NUMBER | MICR CODE | IFSC CODE   | NAME OF NOMINEE |
|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| Savings      | 000401775797   | 400229002 | ICIC0000004 |                 |

Nominee name is displayed only on specific consent of customer.

2



Faizam Ansari

S.Y.B.Sc. (C.S.)

Roll No- 536.

|                      |             |              |                                            |           |
|----------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|
| 26-Jul-2018 18:04:28 | 26-Jul-2018 | 820718685156 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 26/07/18 18:04:28 | 10,000.00 |
| 19-Jul-2018 15:02:23 | 19-Jul-2018 | 000000000000 | ECS GOMMINORITY SCHOLAR                    | 5,000.00  |
| 18-Jul-2018 17:37:00 | 18-Jul-2018 | 000000000000 | UPI ISG REV_819018582249_09-07-2018        | 10.00     |
| 17-Jul-2018 13:52:26 | 17-Jul-2018 | 819813635947 | MB-UPI CREDIT 700450- 17/07/18 13:52:26    | 439.00    |
| 16-Jul-2018 11:40:40 | 16-Jul-2018 |              | Cash Deposit                               | 7,500.00  |
| 12-Jul-2018 18:52:59 | 12-Jul-2018 | 819318263056 | MB-UPI CREDIT 700450- 12/07/18 18:52:59    | 350.00    |
| 12-Jul-2018 18:52:51 | 12-Jul-2018 | 819318263048 | MB-UPI CREDIT 700450- 12/07/18 18:52:51    | 9,999.00  |
| 09-Jul-2018 11:29:50 | 09-Jul-2018 | 819011966245 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 09/07/18 11:29:50 | 388.00    |
| 07-Jul-2018 05:25:07 | 07-Jul-2018 | 818805577756 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 07/07/18 05:25:07 | 1,400.00  |
| 06-Jul-2018 21:21:28 | 06-Jul-2018 | 818721413993 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 06/07/18 21:21:28 | 2,942.00  |
| 06-Jul-2018 21:14:26 | 06-Jul-2018 | 818721413975 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 06/07/18 21:14:26 | 3,920.00  |
| 03-Jul-2018 09:25:03 | 03-Jul-2018 | 818409389427 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 03/07/18 09:25:03 | 490.00    |
| 02-Jul-2018 16:45:05 | 02-Jul-2018 | 818316437467 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 02/07/18 16:45:05 | 6,796.00  |
| 02-Jul-2018 12:11:08 | 02-Jul-2018 | 818348774262 | MB-UPI CREDIT 700450- 02/07/18 12:11:08    | 6,500.00  |
| 02-Jul-2018 12:10:26 | 02-Jul-2018 | 818336944367 | MB-UPI CREDIT 700450- 02/07/18 12:10:26    | 7,000.00  |
| 27-Jun-2018 18:55:06 | 27-Jun-2018 | 817318637927 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 27/06/18 18:55:06 | 16,800.00 |
| 27-Jun-2018 08:37:46 | 27-Jun-2018 | 817808275672 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 27/06/18 08:37:46 | 200.00    |
| 27-Jun-2018 06:55:20 | 27-Jun-2018 | 817806251631 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 27/06/18 06:55:20 | 319.00    |
| 27-Jun-2018 06:23:07 | 27-Jun-2018 | 817806942937 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 27/06/18 06:23:07 | 15,000.00 |
| 26-Jun-2018 06:01:18 | 26-Jun-2018 | 817706683446 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 26/06/18 06:01:18 | 105.00    |
| 25-Jun-2018 10:37:21 | 25-Jun-2018 | 817610279347 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 25/06/18 10:37:21 | 515.00    |
| 19-Jun-2018 13:26:58 | 19-Jun-2018 | 817013067393 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 19/06/18 13:26:58 | 1,554.00  |
| 14-Jun-2018 12:26:39 | 14-Jun-2018 | 000000000000 | ECS BLPGCM84181DT1306                      | 180.19    |
| 11-Jun-2018 18:56:16 | 11-Jun-2018 | 816218612921 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 11/06/18 18:56:16 | 740.00    |
| 08-Jun-2018 05:14:11 | 08-Jun-2018 | 815905359011 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 08/06/18 05:14:11 | 2,545.00  |
| 08-Jun-2018 05:10:17 | 08-Jun-2018 | 815905535456 | MB-IMPS CREDIT 06700450- 08/06/18 05:10:17 | 2,300.00  |
| 01-Jun-2018 10:06:48 | 01-Jun-2018 | 815220242282 | MB-UPI CREDIT 700450- 01/06/18 10:06:48    | 4,500.00  |
| 01-Jun-2018 10:06:21 | 01-Jun-2018 | 815220514859 | MB-UPI CREDIT 700450- 01/06/18 10:06:21    | 5,000.00  |
| 01-Jun-2018 10:05:46 | 01-Jun-2018 | 815230470688 | MB-UPI CREDIT 700450- 01/06/18 10:05:46    | 5,000.00  |

MOHAMED ALI ROAD, MUMBAI  
KARIM TISSI DARGA, 400 003, MUMBAI-400003  
3445325

**Union Bank**  
of India

MAHARASHTRA

IFSC Code : UBI00531847

Issue date: 01-11-2017

Sr No: 1

INDIA

शाखा / Branch :

318402010769029

शाखा का पता / Branch Address :

(SB GENERAL)

शाखा का फोन नं. / Branch Phone No.:

MOHAMMED HUSAIN ZUBER MANSURI

खाता क्र. / Account No.:

In the Name of :

नाम / Name i)

UNDERGRADUATE

ii)

34 GHOGHARI MOHALLAH NIZAM STREET JILANI

MANSION 2ND FLR ROOM NO 26 MUMBAI

iii)

MUMBAI

Pin : 400003 MAHARASHTRA

INDIA

पेशा / Occupation

05-08-2016

पता / Address

Branch Phone No : 3445325

Y/Reg No. 8028027971748

खाता खोलने की तारीख

Date of Opening A/c

नामांकन पंजीकृत / Nomination Registered: हाँ Y / नहीं N



*(Signature)*

लेखाकार Accountant

|            |                                                   |          |         |            |
|------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 12-12-2017 | ANN.FEE6069923184021804FIRSTUSED08/12/2016ST-OPEN | 118.00   |         | 9228.61Cr  |
| 23-12-2017 | SMS Charges for December,2017 Quarter             | 15.39    |         | 9213.22Cr  |
| 03-01-2018 | 318402010769029: Int.Pd:01-10-2017 to 31-12-2017  |          | 312.00  | 9525.22Cr  |
| 18-03-2018 | SMS Charges for March,2018 Quarter                | 15.39    |         | 9509.83Cr  |
| 05-04-2018 | 318402010769029: Int.Pd:01-01-2018 to 31-03-2018  |          | 82.00   | 9591.83Cr  |
| 23-06-2018 | SMS Charges for June,2018 Quarter                 | 15.39    |         | 9576.44Cr  |
| 03-07-2018 | 318402010769029: Int.Pd:01-04-2018 to 30-06-2018  |          | 84.00   | 9660.44Cr  |
| 19-07-2018 | 00/GOW MINORITY SCHOLAR19-07-2 80200              |          | 5000.00 | 14660.44Cr |
| 01-08-2018 | ATM:6069923184021804/821320996988/318402010769029 | 10000.00 |         | 4660.44Cr  |
| 22-09-2018 | SMS Charges for September,2018 Quarter            | 15.39    |         | 4645.05Cr  |
| 05-10-2018 | 318402010769029: Int.Pd:01-07-2018 to 30-09-2018  |          | 62.00   | 4707.05Cr  |




|            |                                                                            |          |          |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 30/01/2018 | E ENTERTAINMENT PVTM<br>NET PYMT 300118 1236 AT BIGTRE                     | 447.20   |          | 2,401.16 CR |
| 04/02/2018 | E ENTERTAINMENT PVTM<br>BY INT FOR THE PERIOD 01-11-20<br>17 To 01-02-2018 |          | 31.00    | 2,432.16 CR |
| 12/05/2018 | BY INT FOR THE PERIOD 01-02-20<br>18 To 30-04-2018                         |          | 21.00    | 2,453.16 CR |
| 19/07/2018 | APB FROM COM MINORITY SCHOLAR<br>SEO 4328948993                            |          | 5,000.00 | 7,453.16 CR |
| 19/07/2018 | ATM WDR 190718 2229 AT +MUMBAI<br>CENTRAL BRANCH MUM                       | 1,000.00 |          | 6,453.16 CR |
| 22/07/2018 | ATM WDR 220718 2247 AT +BOI NA<br>GEADA MUMB                               | 1,000.00 |          | 5,453.16 CR |
| 29/07/2018 | NET PYMT 290718 0107 AT Amazon<br>Pay 8                                    | 1,079.00 |          | 4,374.16 CR |
| 05/08/2018 | BY INT FOR THE PERIOD 01-05-20<br>18 To 31-07-2018                         |          | 25.00    | 4,399.16 CR |

Ansari Uzair Mohd. Irfan.

S.Y.B.Sc. (C.S)

Roll No- 606

MANDVI ( 16 )  
281/287 Narsi Natha St.  
Kanmoor House  
Mandvi Mumbai  
Phone No.: 23757755 / 2



इंडियन बैंक  
Indian Bank

Name : MD. ARIF SHABAN ANSARI  
Account No : 603195223  
Address : 61, DONTAD STREET,  
KGN MANZIL, DAMMAR GALLI,  
ROOM NO. 3A, GR FLOOR, 400009  
MUMBAI



CIF : 3030518287

Nominee :  
Mode of Operation : SELF  
Date of Opening : 24/09/2011

Nom.Reg No. :  
Continuity PB.No : 1

26/09/2011 13139 16

Inform any Change in Your Address or Phone Number to the branch for updation.

खाता सं. / Account No.



इंडियन बैंक  
Indian Bank

| तारीख<br>Date | विवरण<br>Particulars | चेक सं.<br>Chq. No. | आहरण<br>Withdrawals | जमा<br>Deposits | शेष<br>Balance | संक्षिप्त हस्ताक्षर<br>Initials | ग्राहक के प्रयोग हेतु<br>For Customer Use |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 16/03/18      | ABHYUDAYA CO-OP      | 100026              |                     |                 |                |                                 |                                           |
| 17/03/18      | ATM WDL SEQ NO       |                     | 10000.00            |                 | 10000.00       |                                 | 12614.00 Cr                               |
| 30/04/18      | CR INT CR            |                     |                     |                 |                |                                 | 2614.00 Cr                                |
| 06/06/18      | UPI TRANSFER/81      |                     | 199.00              |                 | 20.00          |                                 | 2634.00 Cr                                |
|               | TO 97215000166       |                     |                     |                 |                |                                 | 2435.00 Cr                                |
| 21/06/18      | BY CRIS-C100001      |                     |                     |                 |                |                                 |                                           |
| 30/06/18      | CR INT CR            |                     |                     | 1860.00         |                |                                 | 4295.00 Cr                                |
| 12/07/18      | BHIM REWARD          |                     |                     | 17.00           |                |                                 | 4312.00 Cr                                |
|               | FRM 96101011641      |                     |                     | 25.00           |                |                                 | 4337.00 Cr                                |
| 19/07/18      | UPI TRANSFER/82      |                     | 458.00              |                 |                |                                 |                                           |
|               | TO 97215000166       |                     |                     |                 |                |                                 | 3879.00 Cr                                |
| 19/07/18      | GOM MINORITY SC      |                     |                     | 5000.00         |                |                                 |                                           |
|               | FRM 96117011644      |                     |                     |                 |                |                                 | 8879.00 Cr                                |
| 19/07/18      | Deposit by SELF      |                     |                     | 600.00          |                |                                 |                                           |
| 22/07/18      | POS ATM PURCH        |                     |                     |                 |                |                                 | 9479.00 Cr                                |
| 26/07/18      | ATM WDL SEQ NO       |                     | 740.00              |                 |                |                                 | 8739.00 Cr                                |
| 31/07/18      | ATM WDL SEQ NO       |                     | 500.00              |                 |                |                                 | 8239.00 Cr                                |
| 03/08/18      | Deposit by SELF      |                     | 1500.00             |                 |                |                                 | 6739.00 Cr                                |
|               |                      |                     |                     | 1700.00         |                |                                 | 8439.00 Cr                                |
|               |                      |                     |                     | Carried Forward |                |                                 | 8439.00 Cr                                |

**BANK OF MAHARASHTRA**

Branch : MUMBAI CENTRAL (48)  
Address : MARATHA MANDIR MARGUND FLOOR  
MUMBAI CENTRAL, MUMBAI  
Telephone: 23070361

MICR Code: 400014008  
IFSC Code: MAHB0000048

Call Centre Toll Free No.-1800 102 2636/1800 233

Account No : 60006769541  
Account Type : Sav-Cho-Yuva-Pub-Ind-All INR  
Account Open Date: 18/03/08  
Passbook No : 2  
Passbook Type : CONTINUATION  
Miss. GAUSIYA BASHIRUDDIN SHAIKH

Address :  
SUN SHINE CHS LTD  
15 TH FLOOR FLAT NO 1502  
FAROOK S UMAR BHAI ROAD  
AGRIPADA 400011  
OPERATING SINGLY

Date : 19/12/17

Authorised Official



बचत खाते पासबुक भरतेवेळी वापरण्यात येणारे संक्षेप  
बचत खाता पुस्तिका लिखाते समय प्रयोग किये गये संक्षेप.  
Abbreviations used while completing S.B. Pass Book.

|      |                      |                     |                             |
|------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| CHQW | घनादेश काढला         | बैंक निकाली         | Cheque Withdraw             |
| CHRT | घरातलेला घनादेश      | प्रत्यवर्तित चेक    | Cheque Returned             |
| CRCL | जमा निष्कासन         | जमा समशोधन          | Credit Clearing             |
| CRIN | व्याज जमा            | जमा व्याज           | Credit Interest             |
| CRTR | लेखांतरण जमा         | जमा अंतरण           | Credit Transfer             |
| CSHD | रोकड जमा             | नकद जमा             | Cash Deposit                |
| CSWD | रोकड काढली           | नकद निकाली          | Cash Withdrawal             |
| DRCL | नावे निष्कासन        | नावे समशोधन         | Debit Clearing              |
| DRIN | व्याज नावे           | नावे व्याज          | Debit Interest              |
| DRSI | नावे स्थायी आदेश     | नावे स्थायी निर्देश | Debit Standing Instructions |
| DRSV | नावे सेवा आकार       | नावे सेवा चार्ज     | Debit Service Charges       |
| DRTR | नावे लेखांतरण        | नावे अंतरण          | Debit Transfer              |
| OCHD | नगर बाह्य घनादेश जमा | बाहरी चेक जमा       | Outstation Cheque Deposit   |
| OPND | प्रारंभिक रोख जमा    | प्रारंभिक नकद जमा   | Opening Cash Deposit        |

"While transacting at a branch other than the home branch the passbook of the home branch may be produced in case valid photo identity proof is not available." ("गृह शाखा ये इतर किती अन्य शाखा में व्यवहार करने समय यदि वैध फोटो पहचान प्रमाण उपलब्ध न हो तो गृह शाखा की पासबुक प्रस्तुत की जा सकती है")

उपयुक्त सूचना शेवटच्या पानावर  
उपयुक्त सुझाव आखरी पृष्ठ पर  
USEFUL HINTS ON THE LAST PAGE



Photo

| क्र. क्र. NO. | तारीख दिनांक DATE | तपशील ब्यौरा PARTICULARS | चेक क्रमांक चेक क्रमांक CHEQ. NO. | काढली निकाली गई रकम AMOUNT WITHDRAWN | ठेवली जमा की गई रकम AMOUNT DEPOSITED | शिल्लक बाकी जमा BALANCE | सही हस्ताक्षर SIGN. | ग्राहकाकरीता वाहकों के लिए FOR USE OF CUST |
|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------|

|            |                                  |                 |            |       |         |            |  |  |
|------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------|---------|------------|--|--|
|            |                                  | Brought Forward | 1197.95 Cr |       |         |            |  |  |
| 30/06/18   | BY INTT                          |                 |            |       | 11.00   | 708.95 Cr  |  |  |
| 07/07/18   | QSMS CHA                         |                 |            | 15.00 |         | 693.95 Cr  |  |  |
| 07/07/18   | GST                              |                 |            | 3.00  |         | 690.95 Cr  |  |  |
| 4 30/09/18 | BY INTT                          |                 |            |       | 6.00    | 696.95 Cr  |  |  |
| 5 07/10/18 | QSMS CHA                         |                 |            | 15.00 |         | 681.95 Cr  |  |  |
| 6 07/10/18 | GST                              |                 |            | 2.70  | 4250.00 | 4929.25 Cr |  |  |
| 6 07/10/18 | BY TRF CUST SCHOLARSHIP 16102018 |                 |            |       |         | 679.25 Cr  |  |  |

शाखा / Branch :

शाखा का पता / Branch Address : 315402010578962

शाखा का फोन नं. / Branch Phone No. (SB GENERAL)  
MASTR SHAHID RAJA MOHD PARVEZ ANSARI

खाता क्र. / Account No.:

In the Name of :

नाम / Name i)

ii)

iii)

पेशा / Occupation

पता / Address

खाता खोलने की तारीख

Date of Opening A/c

UNDERGRADUATE

GHADIYAL CHAWL 72 HOUSE NO G/15 GROUND

FLOOR SOUTH STREET AGRI PADA NEAR JH

ULLA MATDA MUMBAI

Pin : 400011 MAHARASHTRA INDIA

08-11-2014

Branch Phone No : 3070272

Y/Reg No. 8028018720142

नामांकन पंजीकृत / Nomination Registered: हैं Y / नहीं N

लेखाकार Accountant

| दिनांक<br>Date | विवरण<br>Particulars                                 | सोल<br>आयडी<br>SOL<br>ID | चेक नं.<br>CHQ.<br>ID | निकाली गयी<br>राशि<br>DEBIT | जमा की गयी<br>राशि<br>CREDIT | जमाकर्ता के खाते में<br>शेष राशि<br>BALANCE | लेखाकर्ता आक्षेप<br>INITIAL |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                | B/F                                                  |                          |                       |                             |                              | 0.00                                        |                             |
| 15-10-2016     | CRTR/000000002621/15-10-2016 01:18:14/CDM            |                          |                       |                             | 1000.00                      | 1000.00Cr                                   |                             |
| 17-10-2016     | General Charges Recovery                             |                          |                       | 15.00                       |                              | 985.00Cr                                    |                             |
| 17-10-2016     | General Charges Recovery                             |                          |                       | 15.00                       |                              | 970.00Cr                                    |                             |
| 17-10-2016     | General Charges Recovery                             |                          |                       | 15.00                       |                              | 955.00Cr                                    |                             |
| 17-10-2016     | General Charges Recovery                             |                          |                       | 15.00                       |                              | 940.00Cr                                    |                             |
| 17-10-2016     | General Charges Recovery                             |                          |                       | 15.00                       |                              | 925.00Cr                                    |                             |
| 17-10-2016     | General Charges Recovery                             |                          |                       | 15.00                       |                              | 910.00Cr                                    |                             |
| 17-10-2016     | General Charges Recovery                             |                          |                       | 15.00                       |                              | 895.00Cr                                    |                             |
| 24-12-2016     | SMS Charges for December,2016 Quarter                |                          |                       | 15.00                       |                              | 880.00Cr                                    |                             |
| 03-01-2017     | 315402010578962:Int.Pd:01-10-2016 to 31-12-2016      |                          |                       |                             | 8.00                         | 888.00Cr                                    |                             |
| 19-03-2017     | SMS Charges for March,2017 Quarter                   |                          |                       | 15.00                       |                              | 873.00Cr                                    |                             |
| 06-04-2017     | 315402010578962:Int.Pd:01-01-2017 to 31-03-2017      |                          |                       |                             | 9.00                         | 882.00Cr                                    |                             |
| 24-05-2017     | TRF. - 201-58307 - MOHD PARVES M A ANSARI            |                          |                       |                             | 30000.00                     | 30882.00Cr                                  |                             |
| 17-06-2017     | TRF.-201-58307-ANSARI MOHD PARVES MOHD AMIN 12101462 |                          |                       | 25000.00                    |                              | 5882.00Cr                                   |                             |
| 24-06-2017     | SMS Charges for June,2017 Quarter                    |                          |                       | 15.00                       |                              | 5867.00Cr                                   |                             |
| 03-07-2017     | SELF 12101463                                        |                          |                       | 3500.00                     |                              | 2367.00Cr                                   |                             |
| 03-07-2017     | 315402010578962:Int.Pd:01-04-2017 to 30-06-2017      |                          |                       |                             | 95.00                        | 2462.00Cr                                   |                             |
| 07-08-2017     | SELF 12101464                                        |                          |                       | 2000.00                     |                              | 462.00Cr                                    |                             |
| 23-09-2017     | SMS Charges for September,2017 Quarter               |                          |                       | 15.39                       |                              | 446.61Cr                                    |                             |
| 01-10-2017     | 315402010578962:Int.Pd:01-07-2017 to 30-09-2017      |                          |                       |                             | 13.00                        | 459.61Cr                                    |                             |
| 18-12-2017     | SB MINBAL CHGS                                       |                          |                       | 118.00                      |                              | 341.61Cr                                    |                             |
| 23-12-2017     | SMS Charges for December,2017 Quarter                |                          |                       | 15.39                       |                              | 326.22Cr                                    |                             |
| 24-12-2017     | CARDLESS DEPOSIT/5821/315402010578962                |                          |                       |                             | 500.00                       | 826.22Cr                                    |                             |
| 03-01-2018     | 315402010578962:Int.Pd:01-10-2017 to 31-12-2017      |                          |                       |                             | 4.00                         | 830.22Cr                                    |                             |
| 11-03-2018     | CARDLESS DEPOSIT/6698/315402010578962                |                          |                       |                             | 1000.00                      | 1830.22Cr                                   |                             |
| 17-03-2018     | SB MINBAL CHGS                                       |                          |                       | 29.76                       |                              | 1800.46Cr                                   |                             |
| 18-03-2018     | SMS Charges for March,2018 Quarter                   |                          |                       | 15.39                       |                              | 1785.07Cr                                   |                             |
| 05-04-2018     | 315402010578962:Int.Pd:01-01-2018 to 31-03-2018      |                          |                       |                             | 9.00                         | 1794.07Cr                                   |                             |
| 23-06-2018     | SMS Charges for June,2018 Quarter                    |                          |                       | 15.39                       |                              | 1778.68Cr                                   |                             |
| 03-07-2018     | 315402010578962:Int.Pd:01-04-2018 to 30-06-2018      |                          |                       |                             | 16.00                        | 1794.68Cr                                   |                             |
| 16-07-2018     | NEFT:MT EDUCARE LIMITED 47380                        |                          |                       |                             | 6000.00                      | 7794.68Cr                                   |                             |
| 19-07-2018     | 00/GOM MINORITY SCHOLAR19-07-2 80200                 |                          |                       |                             | 5000.00                      | 12794.68Cr                                  |                             |

बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India

Name : J J FLYOVER  
 Address : NEAR J. J. FLYOVER., OPP. MAHATMA PHULE MAR  
 MAHARASHTRA, MUMBAI, 400003  
 Br. Tel. : 022-23402051 / 52 /  
 Br. Email : JJFlyover.MumbaiSouth@bankofindia.co.in  
 IFSC Code : BKID00000148 -  
 MICR Code : 400013164  
 Customer Id : 161288328  
 Account No. : 014810110003350 -  
 Name : 1. MUJTABA ABDULKARIM SHAIKH

Occupation : STUDENT  
 Address : USMAN GANI BLDG, 1ST FLOOR, R NO 06  
 STR, TWO TANKS  
 MUMBAI 400003  
 MAHARASHTRA INDIA  
 Operational Inst: SELF OPERATED MINOR ACCOUNT  
 Nomination : REGD.  
 A/C Open Dt.: 28-09-2015

For your queries / enquiry

Toll free no. of our call center: 1800220229, 18001031906

Grievance Redress Officer, ZO: \_\_\_\_\_

Grievance Redress Officer, Branch: 022-23402051 / 52 /

This pass book is system generated and does not require any initials

| दिनांक<br>तारीख<br>Date | विवरण<br>विवरण<br>Particulars   | चेक क्रमांक<br>चेक संख्या<br>Cheque No. | नामे रक्कम<br>निकासी राशि<br>Amt. Withdrawn | जमा रक्कम<br>जमा राशि<br>Amt. Deposited | शिल्लक<br>शेष<br>Balance |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 15-06-2018              | CWDR//383863/DCB00303           |                                         | 8,000.00                                    |                                         | 500.00                   |
| 16-07-2018              | NEFT-MT EDUCARE LIMITED         |                                         |                                             | 6,000.00                                | 6,500.00                 |
| 19-07-2018              | APBS CR INW - GOM MINORITY S    |                                         |                                             | 5,000.00                                | 11,500.00                |
| 30-07-2018              | CWDR//152626/DCB V/D 29-07-2018 |                                         | 5,000.00                                    |                                         | 6,500.00                 |
| 30-07-2018              | CWDR//552817/DCB V/D 29-07-2018 |                                         | 1,000.00                                    |                                         | 5,500.00                 |
| 01-08-2018              | CWDR//921274/DCB00303           |                                         | 4,000.00                                    |                                         | 1,500.00                 |
| 01-08-2018              | CWDR//263934/DCB00303           |                                         | 1,000.00                                    |                                         | 500.00                   |
| 06-08-2018              | Int:01-05-2018/31-07-2018       |                                         |                                             | 22.00                                   | 522.00                   |
| 06-11-2018              | Int:31-10-2018/01-08-2018       |                                         |                                             | 5.00                                    | 527.00                   |

27829

Branch Name : MORLAND ROAD BRANCH, MUMBAI Phone : 022 - 23078183  
 Branch Email ID : mcmorl@bankofbaroda.com  
 IFSC : BARBOMCMORL [Fifth character is zero]  
 MICR Code : 400012154  
 Customer ID : 064640075  
 Account Number : 35980100010247  
 Account Name : MOHD AHMED NIYAZ SHAIKH  
 Joint Name 1 : JUWARIYA MOHAMMED AHMED SHAIKH  
 Address : AMINABAI CHAWL 2ND FLOOR ROOM NO15  
 MAULANA AZAD RD MADANPURA MUMBAI  
 MUMBAI MH 400008  
 04-11-2012  
 Nominee Name : Yes

| दिनांक<br>Date                                                                    | विवरण<br>Particulars                          | चेक नं.<br>CHQ. No. | नामे ₹<br>Debit ₹ | जमा ₹<br>Credit ₹ | शेष राशी ₹<br>Balance ₹ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 31-10-2017                                                                        | Int40000 and TAX000                           |                     |                   | 400.00            | 10796.60                |
| 10-11-2017                                                                        | IMPS P2A 731415290263 XXXXXXXXXXXX0247 -      |                     |                   | 1500.00           | 12296.60                |
| 15-11-2017                                                                        | I W AFBS CREDIT TRANSACTION                   |                     |                   | 220.12            | 12516.72                |
| 30-11-2017                                                                        | 35980300001342 Int45700 and TAX000            |                     |                   | 457.00            | 12973.72                |
| 30-11-2017                                                                        | 35980300001607 Int32800 and TAX000            |                     |                   | 328.00            | 13301.72                |
| 30-11-2017                                                                        | 35980300002245 Int40000 and TAX000            |                     |                   | 400.00            | 13701.72                |
| 07-12-2017                                                                        | BNC CDAR 35980100010247 07-12-2017 135916 SWT |                     |                   | 2000.00           | 15701.72                |
| 11-12-2017                                                                        | I W AFBS CREDIT TRANSACTION                   |                     |                   | 225.62            | 15927.34                |
| 13-12-2017                                                                        | TO CASH                                       | 11                  | 11000.00          |                   | 4927.34                 |
| 24-12-2017                                                                        | 35980300001342 Int45700 and TAX000            |                     |                   | 457.00            | 5384.34                 |
| 24-12-2017                                                                        | 35980300001607 Int32800 and TAX000            |                     |                   | 328.00            | 5712.34                 |
| 24-12-2017                                                                        | 35980300002245 Int40000 and TAX000            |                     |                   | 400.00            | 6112.34                 |
| 26-12-2017                                                                        | SMS Alert charges for Qtr Sep-17              |                     | 17.70             |                   | 6094.64                 |
| 28-12-2017                                                                        | I W AFBS CREDIT TRANSACTION                   |                     |                   | 225.62            | 6320.26                 |
| 04-01-2018                                                                        | SMS Alert charges for Qtr Dec-17              |                     | 17.70             |                   | 6302.56                 |
| 05-01-2018                                                                        | 35980100010247IntPd01-10-2017 to 31-12-2017   |                     |                   | 90.00             | 6392.56                 |
| 27-01-2018                                                                        | 35980300001342 Int45700 and TAX000            |                     |                   | 457.00            | 6849.56                 |
| 27-01-2018                                                                        | 35980300001607 Int32800 and TAX000            |                     |                   | 328.00            | 7177.56                 |
| 27-01-2018                                                                        | 35980300002245 Int40000 and TAX000            |                     |                   | 400.00            | 7577.56                 |
| 30-01-2018                                                                        | I W AFBS CREDIT TRANSACTION                   |                     |                   | 219.65            | 7797.21                 |
| ##As on 30-01-2018 14:07:32 Clr Bal:7797.21 Unclr Bal:0.00 Lien:0.00 (KID 3598/1) |                                               |                     |                   |                   |                         |
| 02-02-2018                                                                        | BY CASH                                       |                     |                   | 50000.00          | 57797.21                |
| 07-02-2018                                                                        | HEERA GOLD EXIM LIMITED                       | 12                  | 50000.00          |                   | 7797.21                 |
| 09-02-2018                                                                        | NEFT-SBING18040089593-PAO MINORITY AFFAIRS    |                     |                   | 12300.00          | 20097.21                |

Branch : MUMBAI MALAD EAST (DEOCHANDNAGAR)  
Address : 11/154 BHANTINATH CHHAYA  
DEOCHANDNAGAR MALAD (E) MUMBAI  
MUMBAI  
Telephone :  
MICR Code : 400014082  
IFSC Code : MAHB0000982

Call Centre Toll Free No.-1800 102 2636/1800 33 4528


Account No : 60252453739  
Account Type : SB-w/o-Chq-Bk-YUVA-INSTACARD  
Acct Open Date: 30/06/2016  
Passbook No : 1  
Passbook Type : ORIGINAL

Miss. IRAM MUBIN SACHWANI



Address:

ROOM NO 10 MANJULA CHAWL  
ISLAMPURA KURAR VILLAGE  
MALAD E  
MUMBAI 00400097  
OPERATING SINGLY



60252453739

Authorised Official  
Date : 01/07/2016

बचत खाते पानबुक भरतेवेळी साधनग्राहक येथारी राहणे.  
बचत खाता पुस्तिका लिखित समत प्रमाण किये मने संक्षेप.  
Abbreviations used while completing S.B. Pass Book.


|      |                   |                     |                             |
|------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| CHQW | चकादेश काढला      | चक निकाली           | Cheque Withdraw             |
| CHRT | चकादेश चकादेश     | चकादेश नैक          | Cheque Returned             |
| CRCL | जमा निष्कासन      | जमा साधारण          | Credit Clearing             |
| CRIN | जमा जमा           | जमा जमा             | Credit Interest             |
| CRTR | लेखांतरण जमा      | जमा अंतरण           | Credit Transfer             |
| CSHD | रोकड जमा          | नकाद जमा            | Cash Deposit                |
| CSWD | रोकड काढली        | नकाद निकाली         | Cash Withdrawal             |
| DRCL | नावे निष्कासन     | नावे साधारण         | Debit Clearing              |
| DRIN | जमा नावे          | जमा जमा             | Debit Interest              |
| DRSI | नावे स्थायी आदेश  | नावे स्थायी निर्देश | Debit Standing Instructions |
| DRSV | नावे सेवा आकार    | नावे सेवा प्रचार    | Debit Service Charges       |
| DRTR | नावे लेखांतरण     | नावे अंतरण          | Debit Transfer              |
| OCHD | नगर बाह्य चकादेश  | बाहरी चक जमा        | Outstation Cheque Deposit   |
| OPND | प्रारंभिक रोख जमा | प्रारंभिक नकाद जमा  | Opening Cash Deposit        |

"While transacting at a branch other than the home branch the passbook of the home branch may be produced in case valid photo identity proof is not available." ("गृह शाखा ये इतर किंवा अन्य शाखा ये व्यवहार करते समय यदि वैध फोटो पहचान प्रमाण उपलब्ध न हो तो गृह शाखा की पासबुक प्रस्तुत की जा सकती है").

उपयुक्त सूचना शेवटच्या पानावर

उपयुक्त सुझाव आखरी पृष्ठ पर

USEFUL HINTS ON THE LAST PAGE



Photo

| ओळ क्र<br>पंक्ति क्र<br>LINE NO. | तारीख<br>दिनांक<br>DATE | तपशील<br>व्याख्या<br>PARTICULARS | चेक क्रमांक<br>चेक क्रमांक<br>CHEQ. NO. | काढली<br>निकाली गई रकम<br>AMOUNT WITHDRAWN | ठेवली<br>जमा की गई रकम<br>AMOUNT DEPOSITED | शिल्लक<br>बाकी जमा<br>BALANCE | सुरी<br>हस्ताक्षर<br>SIGN | पाहणे<br>ग्राहक के लिए<br>FOR USE OF CUST |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|                                  |                         | Brought Forward                  | 272.00 Cr                               |                                            |                                            |                               |                           |                                           |
| 1                                | 31/03/18                | MTN BAL                          |                                         | 108.00                                     |                                            | 166.00 Cr                     |                           |                                           |
| 2                                | 31/03/18                | GST                              |                                         | 19.00                                      |                                            | 147.00 Cr                     |                           |                                           |
| 3                                | 07/04/18                | GSMS CHA                         |                                         | 15.00                                      |                                            | 132.00 Cr                     |                           |                                           |
| 5                                | 18/04/18                | POSTIXN PAYTM                    |                                         | 100.00                                     |                                            | 27.00 Cr                      |                           |                                           |
| 6                                | 18/04/18                | BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA   |                                         |                                            | 1.00                                       | 30.00 Cr                      |                           |                                           |
| 7                                | 15/05/18                | BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA   |                                         |                                            | 500.00                                     | 630.00 Cr                     |                           |                                           |
| 8                                | 15/05/18                | BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA   |                                         |                                            | 400.00                                     | 1030.00 Cr                    |                           |                                           |
| 9                                | 15/05/18                | BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA   |                                         |                                            | 200.00                                     | 1230.00 Cr                    |                           |                                           |
| 10                               | 17/05/18                | POS TXN PAYTM                    |                                         | 500.00                                     |                                            | 730.00 Cr                     |                           |                                           |
| 11                               | 17/05/18                | DR TRFR TO BANK OF MAHARASHTRA   |                                         | 500.00                                     |                                            | 230.00 Cr                     |                           |                                           |
| 12                               | 02/06/18                | BY TRF FRM BANK OF MAHARASHTRA   |                                         |                                            | 500.00                                     | 730.00 Cr                     |                           |                                           |
| 13                               | 02/06/18                | ATM WDL 471287XXXXXX7157 8153130 |                                         | 500.00                                     |                                            | 230.00 Cr                     |                           |                                           |
| 14                               | 05/06/18                | ACH BHIM REWARD EU-UT-20180601   |                                         |                                            | 25.00                                      | 255.00 Cr                     |                           |                                           |
| 15                               |                         | CONT. 180601-0001484486-C        | N                                       |                                            |                                            |                               |                           |                                           |
| 16                               | 20/06/18                | ATM WDL 471287XXXXXX7157 8179210 |                                         | 100.00                                     |                                            | 155.00 Cr                     |                           |                                           |
| 17                               | 30/06/18                | BY INTT                          |                                         |                                            | 2.00                                       | 157.00 Cr                     |                           |                                           |
| 18                               | 30/06/18                | MIN BAL                          |                                         | 106.00                                     |                                            | 51.00 Cr                      |                           |                                           |
| 19                               | 30/06/18                | GST                              |                                         | 19.00                                      |                                            | 32.00 Cr                      |                           |                                           |
| 20                               | 07/07/18                | GSMS CHA                         |                                         | 15.00                                      |                                            | 17.00 Cr                      |                           |                                           |
| 21                               | 07/07/18                | GST                              |                                         | 3.00                                       |                                            | 14.00 Cr                      |                           |                                           |
| 22                               | 19/07/18                | APB COM MINORITY SCHOLAR 367     |                                         |                                            | 5000.00                                    | 5014.00 Cr                    |                           |                                           |
| 23                               | 23/07/18                | ATM WDL 471287XXXXXX7157 8204200 |                                         | 200.00                                     |                                            | 4814.00 Cr                    |                           |                                           |
| 24                               | 23/07/18                | ATM WDL 471287XXXXXX7157 8204200 |                                         | 100.00                                     |                                            | 4714.00 Cr                    |                           |                                           |
| 25                               | 27/07/18                | ATM WDL 471287XXXXXX7157 8208140 |                                         | 4500.00                                    |                                            | 214.00 Cr                     |                           |                                           |
| 26                               | 27/07/18                | MC COMM                          |                                         | 17.00                                      |                                            | 197.00 Cr                     |                           |                                           |
| 27                               | 27/07/18                | GST                              |                                         | 3.00                                       |                                            | 194.00 Cr                     |                           |                                           |
| 28                               | 12/08/18                | DR TRFR TO BANK OF MAHARASHTRA   |                                         | 190.00                                     |                                            | 4.00 Cr                       |                           |                                           |
|                                  |                         | Carried Forward                  | 194.00 Cr                               |                                            |                                            |                               |                           |                                           |

AGRIPOA  
7 7 A KLASSIC TOWER  
A L MAIR RD AGRIPADA MUMBAI-400008  
3070272

यूनियन बैंक Union Bank of India

Issue date: 10-08  
Sr No: 1  
MAHARASHTRA INDIA  
IFSC Code : UBI0531545

शाखा / Branch :

शाखा का पता / Branch Address : 315402010580472

शाखा का फोन नं. / Branch Phone (No. GENERAL)  
MISS BIRJEES SALIM ANSARI

खाता क्र. / Account No.:

In the Name of :

नाम / Name i)

ii)

iii)

पेशा / Occupation

पता / Address

खाता खोलने की तारीख

Date of Opening A/c

UNDERGRADUATE

175 A ZAINEB MANZIL ROOM NO 30 2ND FLOOR

DI MASJID MUMBAI

20-09-2016

MAULANA AZAD ROAD SADI BAZAR OPP BA

Pin : 400008 MAHARASHTRA INDIA

Branch Phone No : 3070272

Y/Reg No. 8028028665688

लेखाकर Ac

नामांकन पंजीकृत / Nomination Registered: हैं Y / नहीं N

| दिनांक<br>Date | विवरण<br>Particulars                                    | सोल<br>आयडी<br>SOL<br>ID | चेक नं.<br>CHQ.<br>ID | निकाली गयी<br>राशि<br>DEBIT | जमा की गयी<br>राशि<br>CREDIT | जमाकर्ता के खाते में<br>शेष राशि<br>BALANCE |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                | B/F                                                     |                          |                       |                             |                              | 0.00                                        |
| 26-09-2016     | CRTR/0000000046578/26-09-2016 02:45:52/CDM              |                          |                       |                             | 1000.00                      | 1000.00                                     |
| 28-09-2016     | BY INST 748838 : CTS MICR D/W CLG 47380                 |                          |                       |                             | 4454.00                      | 5454.00                                     |
| 02-10-2016     | 315402010580472: Int. Pd: 20-09-2016 to 30-09-2016      |                          |                       |                             | 2.00                         | 5456.00                                     |
| 08-10-2016     | ATM: 4520553154009782/2429/315402010580472              |                          |                       | 4400.00                     |                              | 1056.00                                     |
| 24-12-2016     | SMS Charges for December, 2016 Quarter                  |                          |                       | 15.00                       |                              | 1041.00                                     |
| 03-01-2017     | 315402010580472: Int. Pd: 01-10-2016 to 31-12-2016      |                          |                       |                             | 14.00                        | 1055.00                                     |
| 20-02-2017     | CARDLESS DEPOSIT/9362/315402010580472                   |                          |                       |                             | 3800.00                      | 4855.00                                     |
| 22-02-2017     | CARDLESS DEPOSIT/83/315402010580472                     |                          |                       |                             | 5000.00                      | 9855.00                                     |
| 25-02-2017     | POS: Central Board o/Mumbai/705608682296                |                          |                       | 1408.05                     |                              | 8446.9                                      |
| 19-03-2017     | SMS Charges for March, 2017 Quarter                     |                          |                       | 15.00                       |                              | 8431.9                                      |
| 23-03-2017     | CARDLESS DEPOSIT/9541/315402010580472                   |                          |                       |                             | 2500.00                      | 10931.9                                     |
| 30-03-2017     | CARDLESS DEPOSIT/1927/315402010580472                   |                          |                       |                             | 600.00                       | 11531.9                                     |
| 06-04-2017     | 315402010580472: Int. Pd: 01-01-2017 to 31-03-2017      |                          |                       |                             | 45.00                        | 11576.9                                     |
| 22-04-2017     | CARDLESS DEPOSIT/3140/315402010580472                   |                          |                       |                             | 1100.00                      | 12676.9                                     |
| 20-06-2017     | ATM: 4520553154009782/717112363497/315402010580472      |                          |                       | 6500.00                     |                              | 6176.9                                      |
| 20-06-2017     | ATM: 4520553154009782/717112363499/315402010580472      |                          |                       | 5000.00                     |                              | 1176.9                                      |
| 20-06-2017     | ATM: 4520553154009782/717112363499/315402010580472      |                          |                       |                             | 5000.00                      | 6176.9                                      |
| 24-06-2017     | SMS Charges for June, 2017 Quarter                      |                          |                       | 15.00                       |                              | 6161.9                                      |
| 29-06-2017     | ATM: 4520553154009782/6926/315402010580472              |                          |                       | 5100.00                     |                              | 1061.9                                      |
| 03-07-2017     | 315402010580472: Int. Pd: 01-04-2017 to 30-06-2017      |                          |                       |                             | 115.00                       | 1176.9                                      |
| 23-09-2017     | SMS Charges for September, 2017 Quarter                 |                          |                       | 15.39                       |                              | 1161.5                                      |
| 01-10-2017     | 315402010580472: Int. Pd: 01-07-2017 to 30-09-2017      |                          |                       |                             | 11.00                        | 1172.5                                      |
| 05-10-2017     | ANN. FEE 4520553154009782 FIRST USED 01/10/2016 ST-OPEN |                          |                       | 118.00                      |                              | 1054.5                                      |
| 17-12-2017     | 4520553154009782/1905/315402010580472                   |                          |                       |                             | 5000.00                      | 6054.5                                      |
| 23-12-2017     | SMS Charges for December, 2017 Quarter                  |                          |                       | 15.39                       |                              | 6039.1                                      |
| 03-01-2018     | 315402010580472: Int. Pd: 01-10-2017 to 31-12-2017      |                          |                       |                             | 17.00                        | 6056.1                                      |
| 18-03-2018     | SMS Charges for March, 2018 Quarter                     |                          |                       | 15.39                       |                              | 6040.7                                      |
| 26-03-2018     | ATM: 4520553154009782/5736/315402010580472              |                          |                       | 4000.00                     |                              | 2040.7                                      |
| 05-04-2018     | 315402010580472: Int. Pd: 01-01-2018 to 31-03-2018      |                          |                       |                             | 50.00                        | 2090.7                                      |
| 23-06-2018     | SMS Charges for June, 2018 Quarter                      |                          |                       | 15.39                       |                              | 2075.2                                      |
| 26-06-2018     | POS: Payments PayU/Mumbai/817708451148                  |                          |                       | 400.60                      |                              | 1674.7                                      |
| 03-07-2018     | 315402010580472: Int. Pd: 01-04-2018 to 30-06-2018      |                          |                       |                             | 18.00                        | 1692.7                                      |
| 19-07-2018     | 00/GOM MINORITY SCHOLARSHIP-07-2 -- 80200               |                          |                       |                             | 5000.00                      | 6692.7                                      |

Issue date: 18-01-2018  
Sr No.: 1

शखा / Branch : PEDDAR ROAD, MUMBAI  
शखा का पता / Branch Address : INDIA HOUSE NO. 3, OOMER PARK ESTATE, KEMP'S CORNER, 400 036. MUMBAI-400036  
शखा का फोन नं. / Branch Phone No.: 318902010075908  
खाता क्र. / Account No.: (SB GENERAL)  
In the Name of : MISS AAFIYA MOHD ASLAM KHWAJA  
नाम / Name i)  
ii)  
iii)  
पेशा / Occupation : UNDERGRADUATE  
पता / Address : 902, FLOOR 9, PLOT 8, BISMILLAH ARCADE 3RD SANKLI STREET BYCULLA  
MUMBAI Pin : 400008 MAHARASHTRA INDIA  
खाता खोलने की तारीख : 19-09-2016  
Date of Opening A/c :  
नामांकन पंजीकृत / Nomination Registered: हैं Y / नहीं N

MAHARASHTRA  
IFSC Code : UBIN0531898

Branch Phone No : 23861043  
Y/Reg No. 8028028539261

लेखाकार Accountant



| दिनांक<br>Date | विवरण<br>Particulars                               | सोल<br>आयडी<br>SOL<br>ID | चेक नं.<br>CHQ.<br>ID | निकाली गयी<br>राशि<br>DEBIT | जमा की गयी<br>राशि<br>CREDIT | जमाकर्ता के खाते में<br>शेष राशि<br>BALANCE | लेखाकार आशुषा<br>INITIAL |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                | B/F                                                |                          |                       |                             |                              | 0.00                                        |                          |
| 19-09-2016     | BY CASH FOR NEW ACCOUNT OPENED                     |                          |                       |                             | 1000.00                      | 1000.00Cr                                   |                          |
| 02-10-2016     | 318902010075908: Int. Pd: 19-09-2016 to 30-09-2016 |                          |                       |                             | 1.00                         | 1001.00Cr                                   |                          |
| 12-11-2016     | BY CASH                                            |                          |                       |                             | 40000.00                     | 41001.00Cr                                  |                          |
| 17-11-2016     | BY CASH                                            |                          |                       |                             | 40000.00                     | 81001.00Cr                                  |                          |
| 18-11-2016     | BY CASH                                            |                          |                       |                             | 11500.00                     | 92501.00Cr                                  |                          |
| 16-12-2016     | BY INST 37 : CTS MICR O/W CLG 47380                |                          |                       |                             | 6000.00                      | 98501.00Cr                                  |                          |
| 26-12-2016     | NEFT: MT EDUCARE LIMITED UVA PROJECT 47380         |                          |                       |                             | 9000.00                      | 107501.00Cr                                 |                          |
| 03-01-2017     | 318902010075908: Int. Pd: 01-10-2016 to 31-12-2016 |                          |                       |                             | 498.00                       | 107999.00Cr                                 |                          |
| 06-04-2017     | 318902010075908: Int. Pd: 01-01-2017 to 31-03-2017 |                          |                       |                             | 1065.00                      | 109064.00Cr                                 |                          |
| 22-06-2017     | MAHARASHTRA COL OF ARTS S 47380 10047061           |                          |                       | 6500.00                     |                              | 102564.00Cr                                 |                          |
| 03-07-2017     | 318902010075908: Int. Pd: 01-04-2017 to 30-06-2017 |                          |                       |                             | 1081.00                      | 103645.00Cr                                 |                          |
| 01-10-2017     | 318902010075908: Int. Pd: 01-07-2017 to 30-09-2017 |                          |                       |                             | 987.00                       | 104632.00Cr                                 |                          |
| 29-09-2018     | 318902010075908: Int. Pd: 01-10-2017 to 31-12-2017 |                          |                       | 95000.00                    | 923.00                       | 105555.00Cr                                 |                          |
| 05-04-2018     | 318902010075908: Int. Pd: 01-01-2018 to 31-03-2018 |                          |                       |                             | 865.00                       | 11420.00Cr                                  |                          |
| 03-07-2018     | 318902010075908: Int. Pd: 01-04-2018 to 31-06-2018 |                          |                       |                             | 100.00                       | 11520.00Cr                                  |                          |
| 19-07-2018     | 00/GOM MINORITY SCHOLAR 19-07-2 80200              |                          |                       |                             | 5000.00                      | 16520.00Cr                                  |                          |

**BANK OF MAHARASHTRA**

Branch : MUMBAI CENTRAL (48)  
Address : 26, HOOR VILLA, GROUND FLOOR  
MARATHA MANDIR MARG  
MUMBAI CENTRAL, MUMBAI  
Telephone : 23070361  
MICR Code : 400014008  
IFSC Code : MAHB0000048

Call Centre Toll Free No.-1800 102 2636/1800 233 4528

Account No : 60259101790  
Account Type : SB-Chq General-Pub-IND-ALL  
Acct Open Date: 07/09/2016  
Passbook No : 1  
Passbook Type : ORIGINAL


Miss. INSHA MOHAMMED AKBAR SHAIKH

Address:

801 8TH FLOOR VALENCIA PARK  
B J MARG  
BYCULLA WEST  
MUMBAI 00400000

OPERATING SINGLY

Nomination registered on date 07/09/2016 under Serial  
MOHAMMED AKBAR SHAIKH



60259101790

Date

Date : 07/09/2016

Authorised Official



बचत खाते पासबुक भरतेवेळी वापरण्यात येणारे संक्षेप.  
बचत खाता पुस्तिका लिखते समय प्रयोग किये गये संक्षेप.  
Abbreviations used while completing S.B. Pass Book.

|      |                      |                     |                             |
|------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| CHQW | घनादेश काढला         | चेक निकासी          | Cheque Withdraw             |
| CHRT | परतलेला घनादेश       | प्रत्यवर्तित चेक    | Cheque Returned             |
| CRCL | जमा निष्कासन         | जमा समाशोधन         | Credit Clearing             |
| CRIN | व्याज जमा            | जमा व्याज           | Credit Interest             |
| CRTR | लेखांतरण जमा         | जमा अंतरण           | Credit Transfer             |
| CSHD | रोकड जमा             | नकद जमा             | Cash Deposit                |
| CSWD | रोकड काढली           | नकद निकासी          | Cash Withdrawal             |
| 28CL | नावे निष्कासन        | नामे समाशोधन        | Debit Clearing              |
| DRIN | व्याज नावे           | नामे व्याज          | Debit Interest              |
| DRSI | नावे स्थायी आदेश     | नामे स्थायी निर्देश | Debit Standing Instructions |
| DRSV | नावे सेवा आकार       | नामे सेवा प्रभार    | Debit Service Charges       |
| DRTR | नावे लेखांतरण        | नामे अंतरण          | Debit Transfer              |
| OCHD | नगर बाह्य घनादेश जमा | बाहरी चेक जमा       | Outstation Cheque Deposit   |
| OPND | प्रारंभिक रोख जमा    | प्रारंभिक नकद जमा   | Opening Cash Deposit        |

"While transacting at a branch other than the home branch the passbook of the home branch may be produced in case valid photo identity proof is not available." ("गृह शाखा से इतर किसी अन्य शाखा में व्यवहार करते समय यदि वैध फोटो पहचान प्रमाण उपलब्ध न हो तो गृह शाखा की पासबुक प्रस्तुत की जा सकती है").

उपयुक्त सूचना शेवटच्या पानावर

उपयुक्त सुचना कृपया पृष्ठ पर

USEFUL HINTS IN THE LAST PAGE



Photo

| ओळ क्र.<br>पंक्ति क्र<br>LINE NO. | तारीख<br>दिनांक<br>DATE | तपशील<br>व्यौरा<br>PARTICULARS      | चेक क्रमांक<br>चेक क्रमांक<br>CHEQ. NO. | काढली<br>निकाली गई रकम<br>AMOUNT WITHDRAWN | ठेवली<br>जमा की गई रकम<br>AMOUNT DEPOSITED | शिल्लक<br>बाकी जमा<br>BALANCE | सही<br>हस्ताक्षर<br>SIGN. | ग्राहकाकरीता<br>ग्राहकां के लिए<br>FOR USE<br>OF CUST |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   |                         | Brought Forward                     | 301489.00 Cr                            |                                            |                                            |                               |                           |                                                       |
| 1                                 |                         | RTGS (CONT.) GOLD EXIM LTD          | N                                       |                                            |                                            |                               |                           |                                                       |
| 2                                 | 25/01/18                | NEFT/RTG                            |                                         | 25.00                                      |                                            | 1464.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 3                                 | 25/01/18                | GST                                 |                                         | 5.00                                       |                                            | 1459.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 4                                 | 25/01/18                | NEFT N144180547794843 HEERA RETAI M |                                         | 2.00                                       | 8883.00                                    | 10140.00 Cr                   |                           |                                                       |
| 5                                 | 25/01/18                | NEFT (CONT.) MAHB180655301468       | N                                       |                                            |                                            |                               |                           |                                                       |
| 6                                 | 31/03/18                | BY INTT                             |                                         |                                            | 64.00                                      | 10404.00 Cr                   |                           |                                                       |
| 7                                 | 07/04/18                | GSMS CHA                            |                                         | 15.00                                      |                                            | 10389.00 Cr                   |                           |                                                       |
| 8                                 | 07/04/18                | GST                                 |                                         | 3.00                                       |                                            | 10386.00 Cr                   |                           |                                                       |
| 9                                 | 19/04/18                | NEFT N109180523182298 HEERA GOLD M  |                                         |                                            | 9558.00                                    | 19944.00 Cr                   |                           |                                                       |
| 10                                |                         | NEFT (CONT.) MAHB181091825887       | N                                       |                                            |                                            |                               |                           |                                                       |
| 11                                | 20/04/18                | TO CASH Paid to self                |                                         | 18300.00                                   |                                            | 1644.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 12                                | 24/05/18                | NEFT N144180547794843 HEERA RETAI M |                                         |                                            | 9729.00                                    | 11373.00 Cr                   |                           |                                                       |
| 13                                |                         | NEFT (CONT.) MAHB181444265821       | N                                       |                                            |                                            |                               |                           |                                                       |
| 14                                | 14/06/18                | ATM WDL 471287XXXXXX7815            | 8165132                                 | 9000.00                                    |                                            | 2373.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 15                                | 30/06/18                | BY INTT                             |                                         |                                            | 52.00                                      | 2425.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 16                                | 07/07/18                | GSMS CHA                            |                                         | 15.00                                      |                                            | 2410.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 17                                | 07/07/18                | GST                                 |                                         | 3.00                                       |                                            | 2407.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 18                                | 19/07/18                | APB GOM MINORITY SCHOLAR 614        |                                         |                                            | 5000.00                                    | 7407.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 19                                | 24/07/18                | ATM WDL 471287XXXXXX7815            | 8205142                                 | 5000.00                                    |                                            | 2407.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 20                                | 30/09/18                | BY INTT                             |                                         |                                            | 24.00                                      | 2431.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 21                                | 07/10/18                | GSMS CHA                            |                                         | 15.00                                      |                                            | 2416.00 Cr                    |                           |                                                       |
| 22                                | 07/10/18                | GST                                 |                                         | 2.70                                       |                                            | 2413.30 Cr                    |                           |                                                       |
| 23                                | 26/10/18                | DEBIT MAINTENANCE CHRG OF 09/2018   |                                         | 118.00                                     |                                            | 2295.30 Cr                    |                           |                                                       |

## ACCOUNT DETAILS

खाता सं. Account No.

नाम Name(s)

1765101012982

SHIBAPARVEEN MOHDSHABBIR SHAIKH

Mention **13** digit account number  
for all inward RTGS/NEFT  
remittances and enjoy hassle free  
direct credit to your account

व्यवसाय Occupation

Student

पता Address

TAKSHASHILA NAGAR, 2ND FLOOR R NO 2 BABU PATWALA

ग्राहक आई डी Customer-ID

CHAWL NR KABRASTAN KURLA EAST MUMBAI-400070-  
MAHARASHTRA-INDIA

जन्म तिथि Date of Birth

खाता खोलने की तिथि  
A/c Opened on

95379978

20/02/1997

कृते केनरा बैंक For Canara Bank

नामांकित का नाम

Name of Nominee

18-FEB-2016

PPO No:

नामांकन की पंजीकरण संख्या

Nomination Registration No.

ZAHEDA S SHAIKH

अधिकारी / प्रबंधक Officer / Manager

284.4

|    |            |                   | Ch No.        | Withdrawal | Deposits       | Balance   |
|----|------------|-------------------|---------------|------------|----------------|-----------|
| 01 |            |                   | 1765101012982 |            |                |           |
| 02 |            |                   |               |            |                |           |
| 03 |            |                   |               |            |                |           |
| 04 |            |                   |               |            | B/F Balance... | 4277.67   |
| 05 | 13/06/2018 | CASH DEPOSIT      |               |            | 10000.00       | 14,277.67 |
| 06 |            |                   |               |            |                |           |
| 07 |            |                   |               |            |                |           |
| 08 | 19/06/2018 | CASH DEPOSIT      |               |            | 40000.00       | 54,277.67 |
| 09 |            |                   |               |            |                |           |
| 10 |            |                   |               |            |                |           |
| 11 | 21/06/2018 | CASH DEPOSIT      |               |            | 35000.00       | 89,277.67 |
| 12 | 28/06/2018 | ECS TPACHRELIANC  |               | 1000.00    |                | 88,277.67 |
| 13 |            | EMF               |               |            |                |           |
| 14 | 30/06/2018 | SMS ALERT CHARGE  |               | 12.00      |                | 88,265.67 |
| 15 |            | S NEW             |               |            |                |           |
| 16 | 07/07/2018 | LOAN MINORITY     |               |            | 5000.00        | 93,265.67 |
| 17 |            | SCHOLAR           |               |            |                |           |
| 18 |            |                   |               |            |                |           |
| 19 |            |                   |               |            |                |           |
| 20 |            |                   |               |            |                |           |
| 21 |            |                   |               |            |                |           |
| 22 |            |                   |               |            |                |           |
| 23 | 30/07/2018 | ECS TPACHRELIANC  |               | 1000.00    |                | 92265.67  |
| 24 |            | EMF               |               |            |                |           |
| 25 | 31/07/2018 | SBINT FOR THE PE  |               |            | 404.00         | 92669.67  |
| 26 |            | RIOD FROM 01-MAY- |               |            |                |           |
| 27 |            | 18 TO 31-JUL-18   |               |            |                |           |
| 28 | 09/08/2018 | NEFT-RELIANCE SM  |               |            | 100000.00      | 192669.67 |
| 29 |            | ALL CAP FUND RED  |               |            |                |           |
| 30 |            | EMPTION-AXISCN00  |               |            |                |           |
| 31 | 28/08/2018 | ECS TPACHRELIANC  |               | 1000.00    |                | 191669.67 |
| 32 |            | EMF               |               |            |                |           |
| 33 | 26/09/2018 | IPO: To IPO - IRC |               | 13950.00   |                | 177719.67 |
| 34 |            | ON INTERNATIONAL  |               |            |                |           |
| 35 |            | LTD 1765          |               |            |                |           |

Continued...

CHUNABATTI, MUMBAI

शाखा के विवरण / Branch Details

BUNTAR BHAVAN, BHANDARI ESTATE, KURLA(E)

MUMBAI

, MAHARASHTRA - 400070. Ph: 24054950, 24053259 email: vb5042@vijayabank.co.in

IFSC CODE: VIJB0005042 / MICR CODE : 400029019 / SERVICE TAX REG. NO : AACV4791JST002

खाता विवरण / Account Details

Account No. - 504201011006095

Name : MS. NAZMA AYUB KHAN

Customer ID - 111858008

Aadhaar : 621234579505

Occupation : STUDENT

Address : ROOM NO 69 GAFFAR SETH CHAWL

QURESHI NAGAR KURLA E MUMBAI

MUMBAI MAHARASHTRA

INDIA Pin : 400070

Nominee : KHAN ZAREENA

30-09-2016

दिनांक

Date

कृते विजया बैंक  
For Vijaya Bankशाखा प्रबंधक  
Br. Manager

## विजया बैंक VIJAYA BANK

| क्र. सं.<br>Sl.<br>No. | दिनांक<br>Date | व्योरा<br>Particulars                           | चेक सं.<br>Cheque No. | आहरण<br>Withdrawal<br>₹ प. / P. | जमा<br>Deposit<br>₹ प. / P. | शेष<br>Balance<br>₹ प. / P. |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2.                     | 29-09-2016     | CASH                                            |                       |                                 | 500.00                      | 500.00 Cr                   |
| 3.                     | ****           | (Effective Available Balance Rs. 500.00)        |                       |                                 |                             |                             |
| 5.                     | 18-10-2016     | salary                                          |                       |                                 | 25176.00                    | 25676.00 Cr                 |
| 6.                     | 18-10-2016     | WRONG DR REVERSED                               | 25176.00              |                                 |                             | 500.00 Cr                   |
| 7.                     | ****           | (Effective Available Balance Rs. 500.00)        |                       |                                 |                             |                             |
| 8.                     | 07-11-2016     | Non-Photo Debit Card charges for OCT2016        |                       | 143.75                          |                             | 356.25 Cr                   |
| 9.                     | 25-11-2016     | NEFT-MT EDUCARE L                               |                       |                                 | 9000.00                     | 9356.25 Cr                  |
| 10.                    | 16-12-2016     | SELF                                            | 715978                | 6000.00                         |                             | 3356.25 Cr                  |
| 11.                    | 26-12-2016     | SMS Charges                                     |                       | 20.00                           |                             | 3336.25 Cr                  |
| 12.                    | 29-12-2016     | SELF                                            | 717377                | 2000.00                         |                             | 1336.25 Cr                  |
| 13.                    | 03-01-2017     | INT.FOR: 01-10-2016 to 30-12-2016:5042010110060 |                       |                                 | 21.00                       | 1363.25 Cr                  |
| 14.                    | 28-01-2017     | NFSD/S10A006240//15:55:56/702815013822          |                       | 500.00                          |                             | 865.25 Cr                   |
| 15.                    | 28-01-2017     | NFSD/S10A006240//15:57:46/702815013933          |                       | 500.00                          |                             | 365.25 Cr                   |
| 16.                    | 27-03-2017     | SMS Charges                                     |                       | 20.00                           |                             | 345.25 Cr                   |
| 17.                    | 02-04-2017     | INT.FOR::30-03-2017:504201011006095             |                       |                                 | 7.00                        | 332.25 Cr                   |
| 18.                    | 23-06-2017     | SMS Charges                                     |                       | 20.00                           |                             | 332.25 Cr                   |
| 19.                    | 02-07-2017     | INT.FOR::30-06-2017:504201011006095             |                       |                                 | 4.00                        | 336.25 Cr                   |
| 20.                    | 19-09-2017     | SMS Charges                                     |                       | 25.00                           |                             | 311.25 Cr                   |
| 21.                    | 02-10-2017     | INT.FOR: 01-07-2017 to 30-09-2017:5042010110060 |                       |                                 | 3.00                        | 314.25 Cr                   |
| 22.                    | 28-11-2017     | Annual Charges For Debit Card for OCT2017       |                       | 118.00                          |                             | 196.25 Cr                   |
| 23.                    | 26-12-2017     | SMS Charges                                     |                       | 25.00                           |                             | 171.25 Cr                   |
| 24.                    | 02-01-2018     | INT.FOR: 01-10-2017 to 30-12-2017:5042010110060 |                       |                                 | 2.00                        | 173.25 Cr                   |
| 25.                    | 26-03-2018     | SMS Charges                                     |                       | 25.00                           |                             | 148.25 Cr                   |
| 26.                    | 27-03-2018     | Min Bal Charges For DECEMBER 2017               |                       | 15.00                           |                             | 133.25 Cr                   |
| 27.                    | 30-03-2018     | Min Bal Charges For JANUARY 2018                |                       | 15.00                           |                             | 118.25 Cr                   |
| 28.                    | 05-04-2018     | INT.FOR::30-03-2018:504201011006095             |                       |                                 | 1.00                        | 119.25 Cr                   |
| 29.                    | 15-05-2018     | Min Bal Charges For FEBRUARY 2018               |                       | 15.00                           |                             | 104.25 Cr                   |
| 30.                    | 18-05-2018     | Min Bal Charges For MARCH 2018                  |                       | 30.00                           |                             | 74.25 Cr                    |
| 31.                    | 26-06-2018     | SMS Charges                                     |                       | 25.00                           |                             | 49.25 Cr                    |
| 32.                    | 30-06-2018     | Min Bal Charges For APRIL 2018                  |                       | 30.00                           |                             | 19.25 Cr                    |
| 33.                    | 04-07-2018     | INT.FOR::30-06-2018:504201011006095             |                       |                                 | 1.00                        | 20.25 Cr                    |
| 34.                    | 09-07-2018     | BPHMGOM MINORITY SCHOLAR1428                    |                       |                                 | 5000.00                     | 5020.25 Cr                  |

Branch : MUMBAI CENTRAL (48)  
Address : 26, HOOR VILLA, GROUND FLOOR  
MARATHA MANDIR MARG  
MUMBAI CENTRAL, MUMBAI  
Telephone : 23070361  
MICR Code : 400014008  
IFSC Code : MAHB0000048

Call Centre Toll Free No.-1800 102 2636/1800 233 4546

Account No : 60259785699  
Account Type : SB-Chq General-Pub-IND-ALL  
Acct Open Date : 15/09/2016  
Passbook No : 1  
Passbook Type : ORIGINAL


Miss. NABEELA MOHD ISMAIL ANSARI

Address:

SONI MANZIL BLDG NO 108  
ROOM NO 204 2ND FLOOR  
MANGAL BAZAR  
BHIWANDI 00421302

OPERATING SINGLY

Nomination registered on date 15/09/2016 Under Serial No: 2239011  
MOHD ISMAIL ANSARI



Date

60259785699

Authorised Official

Date : 15/09/2016



बचत खाते पासबुक भरतेवेळी वापरण्यात येणारे संक्षेप.  
बचत खाता पुस्तिका लिखते समय प्रयोग किये गये संक्षेप.  
Abbreviations used while completing S.B. Pass Book.

|      |                      |                     |                             |
|------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| CHQW | घनादेश काढला         | चेक निकासी          | Cheque Withdraw             |
| CHRT | परतलेला घनादेश       | प्रत्यवर्तित चेक    | Cheque Returned             |
| CRCL | जमा निष्कासन         | जमा समाशोधन         | Credit Clearing             |
| CRIN | व्याज जमा            | जमा व्याज           | Credit Interest             |
| CRTR | लेखांतरण जमा         | जमा अंतरण           | Credit Transfer             |
| CSHD | रोकड जमा             | नकद जमा             | Cash Deposit                |
| CSWD | रोकड काढली           | नकद निकासी          | Cash Withdrawal             |
| DRCL | नावे निष्कासन        | नामे समाशोधन        | Debit Clearing              |
| DRIN | व्याज नावे           | नामे व्याज          | Debit Interest              |
| DRSI | नावे स्थायी आदेश     | नामे स्थायी निर्देश | Debit Standing Instructions |
| DRSV | नावे सेवा आकार       | नामे सेवा प्रचार    | Debit Service Charges       |
| DRTR | नावे लेखांतरण        | नामे अंतरण          | Debit Transfer              |
| OCHD | नगर बाह्य घनादेश जमा | बाहरी चेक जमा       | Outstation Cheque Deposit   |
| OPND | प्रारंभिक रोख जमा    | प्रारंभिक नकद जमा   | Opening Cash Deposit        |

"While transacting at a branch other than the home branch the passbook of the home branch may be produced in case valid photo identity proof is not available." ("गृह शाखा से इतर किसी अन्य शाखा में व्यवहार करते समय यदि वैध फोटो पहचान प्रमाण उपलब्ध न हो तो गृह शाखा की पासबुक प्रस्तुत की जा सकती है").

उपयुक्त सूचना शेवटच्या पानावर

उपयुक्त सुझाव आखरी पृष्ठ पर

USEFUL HINTS ON THE LAST PAGE



Photo

| ओळ क्र.<br>पंक्ति क्र.<br>LINE NO. | तारीख<br>दिनांक<br>DATE | तपशील<br>व्यास<br>PARTICULARS | चेक क्रमांक<br>चेक क्रमांक<br>CHEQ. NO. | काढली<br>निकाली गई रकम<br>AMOUNT WITHDRAWN | ठेवली<br>जमा की गई रकम<br>AMOUNT DEPOSITED | शिल्लक<br>बाकी जमा<br>BALANCE | सही<br>हस्ताक्षर<br>SIGN. | ग्राहकाकरीता<br>ग्राहकों के लिए<br>FOR USE OF CUST. |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                    |                         | Brought Forward               | 23.408                                  | 0-Cr                                       |                                            |                               |                           |                                                     |
| 03/01/18                           |                         | ATM WDL 471287XXXXXX0892      | 8063122                                 | 10000.00                                   |                                            | 22344.00 Cr                   |                           |                                                     |
| 06/01/18                           |                         | QSMS CHA                      |                                         | 15.00                                      |                                            | 223434.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 08/03/18                           |                         | ATM WDL 471287XXXXXX0892      | 8067062                                 | 10000.00                                   |                                            | 213431.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 31/03/18                           |                         | BY INTT                       |                                         |                                            | 1907.00                                    | 215338.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 07/04/18                           |                         | QSMS CHA                      |                                         | 15.00                                      |                                            | 215323.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 07/04/18                           |                         | GST                           |                                         | 3.00                                       |                                            | 215320.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 02/05/18                           |                         | ATM WDL 471287XXXXXX0892      | 8122052                                 | 20000.00                                   |                                            | 195320.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 03/05/18                           |                         | ATM WDL 471287XXXXXX0892      | 8123052                                 | 15000.00                                   |                                            | 180320.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 30/06/18                           |                         | BY INTT                       |                                         |                                            | 1679.00                                    | 181999.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 07/07/18                           |                         | QSMS CHA                      |                                         | 15.00                                      |                                            | 181984.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 07/07/18                           |                         | GST                           |                                         | 3.00                                       |                                            | 181981.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 19/07/18                           |                         | APB GOM MINORITY SCHOLAR 1101 |                                         |                                            | 5000.00                                    | 186981.00 Cr                  |                           |                                                     |
|                                    |                         | APB (CONT.) 1                 |                                         |                                            |                                            |                               |                           |                                                     |
| 21/07/18                           |                         | ATM WDL 471287XXXXXX0892      | 8202082                                 | 5000.00                                    |                                            | 181981.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 30/09/18                           |                         | BY INTT                       |                                         |                                            | 1606.00                                    | 183587.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 07/10/18                           |                         | QSMS CHA                      |                                         | 15.00                                      |                                            | 183572.00 Cr                  |                           |                                                     |
| 07/10/18                           |                         | GST                           |                                         | 2.70                                       |                                            | 183569.30 Cr                  |                           |                                                     |



Khairul Islam higher Education Society's

# Maharashtra College

## OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE

Ref. No. \_\_\_\_\_

Date 01-02-2023

### Scholarship Year wise

#### 2017-18

| Sr. No. | Name of the Students                     | Class                                        | Amount (Rs) | Scholarship name                              |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 01      | Juvariya Mohammed Ahmed / Mohammed Ahmed | Bachelor Of Science (Information Technology) | 6000.00     | Post Matric Scholarship Schemes Minorities Cs |

#### 2018-19

| Sr. No. | Name of the Students             | Class                                | Amount (Rs) | Scholarship name                         |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 01      | Mohammed Irfan Rayeen            | Bachelor of Management Stud.(B.M.S.) | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 02      | Ansari Yusuf Yahya               | B.Sc.                                | 800.00      | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 03      | Samreen Naaz Akhter Husain Sayed | M.Sc. (Botany)                       | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 04      | Taiba Shahid Ali Shaikh          | B.Sc.                                | 800.00      | State Minority Scholarship Part II (DHE) |

#### 2019-2020

| Sr. No. | Name of the Students                           | Class                  | Amount (Rs) | Scholarship name                              |
|---------|------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 01      | Sana Abdul Qayyum Ansari / Abdul Qayyum Ansari | Bachelor Of Arts(Arts) | 6000.00     | Post Matric Scholarship Schemes Minorities Cs |
| 02      | Aanisah Zainab Abdurrahman Aazmi               | B.Sc.                  | 800.00      | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |



Principal

246-A, JEHANGIR BOMAN BEHRAM ROAD, MUMBAI - 400 008.

TEL. : 2308 1664 / 2308 1665 • FAX : 2309 2248

Website : [www.maharashtracollege.org](http://www.maharashtracollege.org) • E-mail : [prin.maharashtracasc08@yahoo.com](mailto:prin.maharashtracasc08@yahoo.com)

NSP 2.0  
Scholarship Recipients (Fresh)

| Sr. # | Application Id    | Name/Father's Name                      | Mobile     | Course Name                                 | Name of Scheme                                |
|-------|-------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | MH201718004509886 | JUVARIYA MOHAMMED AHMED /MOHAMMED AHMED | XXXXXX9301 | BACHELOR OF SCIENCE(INFORMATION TECHNOLOGY) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS |

NSP 2.0  
Scholarship Recipients (Fresh)

| Sr. # | Application Id    | Name/Father's Name                                | Mobile     | Course Name            | Name of Scheme                                |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | BR201920004724202 | MOHAMMAD SAMEER /SHAMSHAD ALAM                    | XXXXXX2698 | XI                     | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS |
| 2     | MH201920000740932 | SHAIKH MOHAMMED JASIR ANWAR HUSSAIN /Anwar Husain | XXXXXX5389 | XII-Science            | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS |
| 3     | MH201920001548794 | SANA ABDUL QAYYUM ANSARI /ABDUL QAYYUM ANSARI     | XXXXXX0037 | BACHELOR OF ARTS(ARTS) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS |
| 4     | UP201920001074684 | SHAHBAZ AHMAD /ABDUL MALIK                        | XXXXXX2618 | XI                     | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS |
| 5     | UP201920004810294 | ADNAN ANSARI /ABDUL SALAAM                        | XXXXXX5428 | XI                     | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS |



Khairul Islam higher Education Society's

# Maharashtra College

## OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE

Ref. No. \_\_\_\_\_

2020-2021

Date 01-02-2023

| Sr. No. | Name of the Students                                     | Class                               | Amount (Rs) | Scholarship name                              |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 01      | Musharrafa Hani Mohd Sharif Shishgar / Mohd Sharif       | Bachelor Of Commerce                | 6000.00     | Post Matric Scholarship Schemes Minorities Cs |
| 02      | Mohammad Ashraf Mohammad Hussain Khan / Mohammad Hussain | Bachelor Of Science (IT)            | 6000.00     | Post Matric Scholarship Schemes Minorities Cs |
| 03      | Mohd. Affan Aleem Ahmed Khan                             | B.Sc. (Computer Science)            | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| 04      | Unaika Ziaulafkar Ayubi                                  | Bachelor of Management Stud.(B.M.S) | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| 05      | Savez Zahid Akhtar Ansari                                | B.Sc. (Information Technology)      | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| 06      | Anjum Mohd Akil Qureshi                                  | B.Sc.                               | 800.00      | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| 07      | Fahima Bi Mohammad Salim Shaikh                          | B.Sc. (Computer Science)            | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| 08      | Ayesha Sayeed Ahmed Ansari                               | B.Sc. (Computer Science)            | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| 09      | Ammara Ansari                                            | B.Sc. (Computer Science)            | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| 10      | Ansari Mohammed Akbar Mohammed Amanullah                 | Bachelor of Management Stud.(B.M.S) | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| 11      | Uzer Ayaz Bagban                                         | B.Sc. (Information Technology)      | 5000.00     | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| 12      | Devmane Dhananjay Rajesh                                 | M.Sc. (Botany)                      | 8,828.00    | Government of India Post-Matric Scholarship   |



Principal

246-A, JEHANGIR BOMAN BEHRAM ROAD, MUMBAI - 400 008.

TEL. : 2308 1664 / 2308 1665 • FAX : 2309 2248

Website : [www.maharashtracollege.org](http://www.maharashtracollege.org) • E-mail : [prin.maharashtracasc08@yahoo.com](mailto:prin.maharashtracasc08@yahoo.com)

NSP 2.0  
Scholarship Recipients (Fresh)

| Sr.<br># | Application Id    | Name/Father's Name                                      | Mobile     | Course Name                                  | Name of Scheme                                         |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | MH202021009689870 | MUSHARRAFA HANI MOHD SHARIF SHISHGAR /Mohd Sharif       | XXXXXX6716 | BACHELOR OF COMMERCE[ ACCOUNTS AND FINANCE ] | POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR STUDENTS WITH DISABILITIES |
| 2        | MH202021010142527 | MOHAMMAD ASHRAF MOHAMMAD HUSSAIN KHAN /MOHAMMAD HUSSAIN | XXXXXX1027 | BACHELOR OF SCIENCE(INFORMATION TECHNOLOGY)  | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS          |



Khairul Islam higher Education Society's

# **Maharashtra College**

## **OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE**

Ref. No. \_\_\_\_\_

Date 01-02-2023

**2021-2022**

| <b>Sr. No.</b> | <b>Name of the Students</b>                             | <b>Class</b>                            | <b>Amount (Rs)</b> | <b>Scholarship name</b>                       |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>01</b>      | Mohammad Ashraf Mohammad Hussain Khan /Mohammad Hussain | Bachelor Of Science(IT)                 | 6000.00            | Post Matric Scholarship Schemes Minorities Cs |
| <b>02</b>      | Abadullah Azam / Md Azam                                | Bachelor Of Commerce (Commerce)         | 6000.00            | Post Matric Scholarship Schemes Minorities Cs |
| <b>03</b>      | Mohd. Yasir Shakeel Ahmed Ansari.                       | B.Sc. (Computer Science)                | 5000.00            | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| <b>04</b>      | Shaikh Afreen Abdul Jabbar                              | B.Sc.                                   | 800.00             | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| <b>05</b>      | Hafeeza Aslam Ansari                                    | M.Sc. (Information Technology)          | 5000.00            | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| <b>06</b>      | Fahima Bi Mohammad Salim Shaikh                         | B.Sc. (Computer Science)                | 5000.00            | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| <b>07</b>      | Sadiya Mohammed Anwar Shaikh                            | B.Sc.                                   | 800.00             | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| <b>08</b>      | Mohammed Safwan Khurshid Ahmed Shaikh                   | B.Sc. (Computer Science)                | 5000.00            | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| <b>09</b>      | Shaikh Tarannum Fatima Zakir Husain                     | B.Com.                                  | 800.00             | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |
| <b>10</b>      | Unaika Ziaulafkar Ayubi                                 | Bachelor of Management Studies (B.M.S.) | 5000.00            | State Minority Scholarship Part II (DHE)      |

246-A, JEHANGIR BOMAN BEHRAM ROAD, MUMBAI - 400 008.

TEL. : 2308 1664 / 2308 1665 • FAX : 2309 2248

Website : [www.maharashtracollege.org](http://www.maharashtracollege.org) • E-mail : [prin.maharashtracasc08@yahoo.com](mailto:prin.maharashtracasc08@yahoo.com)



Khairul Islam higher Education Society's

# **Maharashtra College**

## **OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE**

Ref. No. \_\_\_\_\_

Date 01-02-2022

|    |                                          |                                         |         |                                          |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 11 | Mohd. Affan Aleem Ahmed Khan             | B.Sc.<br>(Computer Science)             | 5000.00 | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 12 | Ansari Uzair Ayub                        | B.Sc.<br>(Computer Science)             | 5000.00 | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 13 | Mohammed Hasnain Anees Ahmed Ansari      | B.Sc.<br>(Computer Science)             | 5000.00 | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 14 | Ansari Mohammed Akbar Mohammed Amanullah | B.Sc.<br>(Computer Science)             | 5000.00 | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 15 | Mohd Wasim Mohd Sharif Khan              | Bachelor of Management Studies (B.M.S.) | 5000.00 | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 16 | Uzer Ayaz Bagban                         | B.Sc.<br>(Information Technology)       | 5000.00 | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 17 | Sumaiya Aqsa Aqil Ahmed Ansari           | B.Sc.                                   | 800.00  | State Minority Scholarship Part II (DHE) |
| 18 | Asad Asif Raees                          | B.Sc.<br>(Information Technology)       | 800.00  | State Minority Scholarship Part II (DHE) |



Principal

246-A, JEHANGIR BOMAN BEHRAM ROAD, MUMBAI - 400 008.

TEL. : 2308 1664 / 2308 1665 • FAX : 2309 2248

Website : [www.maharashtracollege.org](http://www.maharashtracollege.org) • E-mail : [prin.maharashtracasc08@yahoo.com](mailto:prin.maharashtracasc08@yahoo.com)

NSP 2.0  
Scholarship Recipients (Fresh)

| Sr. # | Application Id    | Name/Father's Name      | Mobile     | Course Name                    | Name of Scheme                                |
|-------|-------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | BR202122000810638 | ABADULLAH AZAM /MD AZAM | XXXXXX3668 | BACHELOR OF COMMERCE(COMMERCE) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS |

NSP 2.0  
Scholarship Recipients (Renewal)

| Sr.<br># | Application Id    | Name/Father's Name                                      | Mobile     | Course Name                                 | Name of Scheme                                |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | MH202021010142527 | MOHAMMAD ASHRAF MOHAMMAD HUSSAIN KHAN /MOHAMMAD HUSSAIN | XXXXXX1027 | BACHELOR OF SCIENCE(INFORMATION TECHNOLOGY) | POST MATRIC SCHOLARSHIP SCHEMES MINORITIES CS |